



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, सितम्बर 19, 2002/भाद्र 28, 1924

No. 435]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2002/BHADRA 28, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2002

सा. का. नि. 658(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पत्तन के न्यायी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित मद्रास पत्तन न्याय कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) संशोधन विनियम, 2002 का अनुमोदन करती है।

उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) (संशोधन) विनियम 2002

महा पत्तन न्याय अधिनियम 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 28 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है।

1. लघु शीर्ष :

ये विनियम मद्रास पोर्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) (संशोधन) विनियम 2002 के नाम से कहलाए जाएंगे।

2: ये संशोधन विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम 1994 में निम्न प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

(1) उपरोक्त विनियम में विनियम 4 का उप विनियम (1) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. (1) मोटर कार अग्रिम

(1) ट्रस्ट के सभी अधिकारी जिनका मूल वेतन रु. 10,500/- प्रतिमाह या उससे ज्यादा है, वे मोटर कार की खरीद के लिए मोटर कार अग्रिम की मंजूरी हेतु पात्र हैं।

- (ii) प्रथम बार मोटर कार की खरीद के लिए अग्रिम की राशि 20 महीने का मूलवेतन या अधिकतम रु. 2.5 लाख या नयी कार की लागत का 80% जो भी कम हो, होगी।
- (iii) दूसरी बार या आगे के अवसर पर मोटर कार की खरीद के लिए अग्रिम की राशि रु. 1,60,000 या 11 महीने का मूल वेतन या नयी मोटर कार का अनुमानित मूल्य, जो भी कम हो, होगी।
- (iv) पुरानी मोटर कार की खरीद के मामले में अग्रिम की राशि 20 महीने का मूल वेतन, अधिकतम रु. 1.80 लाख या वास्तविक लागत जो एक सूचित मूल्यांकन द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जो भी कम हो, होगी।
- (v) दूसरी बार या आगे के अवसर पर पुरानी मोटर कार की खरीद के मामले में अग्रिम की राशि 20 महीने का मूल वेतन, अधिकतम रु. 80,000 या कार का वास्तविक मूल्य जो एक सूचित मूल्यांकन द्वारा प्रमाणित किया जाना है, जो भी कम हो, होगी।
- (vi) मोटर कार खरीदने के लिए मंजूर किए गए अग्रिम को, अग्रिम के देने के बाद दिए जानेवाले प्रथम वेतन से 200 मासिक बराबर किस्तों में काटा जाएगा।

2. उपरोक्त विनियम में विनियम 4 का उप-विनियम (2) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. (2) मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम :

- (i) ट्रस्ट के सभी कर्मचारी जिनका मूल वेतन रु. 4,600 प्र. मा. या उससे ज्यादा है, वे मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी हेतु पात्र हैं।
- (ii) प्रथम बार मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के लिए अग्रिम की राशि 8 महीने का मूल वेतन, रु. 30,000 या वास्तविक लागत का 80% जो भी कम हो, होगी।
- (iii) दूसरी बार या आगे के अवसर पर मोटर कार की खरीद के लिए अग्रिम की राशि रु. 24,000 या 5 महीने का मूल वेतन का अनुमानित मूल्य जो भी कम हो, होगी।
- (iv) विनियम 4(2)(ii) तथा (iii) के तहत मंजूर किए गए अग्रिम को, अग्रिम के देने के बाद दिए जानेवाले प्रथम वेतन से 70 मासिक किस्तों में काटा जाएगा।
- (v) पुरानी मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड की खरीद के मामले में अग्रिम की राशि रु. 10,000 या वास्तविक मूल्य जो भी कम हो तथा मंजूर किए गए अग्रिम को, अग्रिम देने के बाद दिए जानेवाले प्रथम वेतन से 60 मासिक बराबर किस्तों में काटा जाएगा।

3. उपरोक्त विनियम में विनियम 5 का उप विनियम (2) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- 5(2) नई साइकिल खरीदने के लिए अग्रिम की राशि रु. 1,500 है जो अग्रिम देने के बाद दिए जानेवाले प्रथम वेतन से 25 मासिक बराबर किस्तों में काटा जाएगा।

(4) उपरोक्त विनियम का विनियम 7 के तहत निम्नलिखित को उप-विनियम (5) के रूप में शामिल किया जाएगा।

विनियम 7 का उप विनियम (5)

उपरोक्त सवारी अग्रिम के मामले में अन्य सभी शर्तें अर्थात् हकदारी पात्रता, मासिक किस्त तथा अग्रिम पर ब्याज आदि मौजूदा आदेश या समय-समय पर लागू आदेशों द्वारा नियमित होगा।

पाद टिप्पणी :—मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम 1994, जो जल भूतल परिवहन मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित है का प्रकाशन दिनांक 2-2-1994 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 57(ई) को भारत सरकार राजपत्र में किया गया तथा दिनांक 9-1-96 को जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 13(ई) द्वारा संशोधित किया गया।

[फा. सं. पी आर-12016/6/2002—पीई-1]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Port Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2002

G.S.R 658 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port

Trust Employees (Grant of Conveyance Advance) Amendment Regulation, 2000 made by the Board of Trustees of Port of the Madras as set out in the schedule annexed to this Notification.

- 2 The said regulations shall come in force on the date of publication of this Notification in the Office Gazette.

SCHEDULE

MADRAS PORT TRUST EMPLOYEES (GRANT OF CONVEYANCE ADVANCE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2002.

In exercise of the powers conferred under section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Port Trust Board hereby makes the following Amendment Regulations :

1 Short Title:

These Regulations may be called the Madras Port Trust employees' (Grant of Conveyance Advance) (Amendment) Regulations, 2002.

- 2 The amendment Regulations shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

3. In the Madras Port Trust Employees' (Grant of Conveyance Advance) Regulations, 1994 the following amendments shall be made:-

- (1) Sub-Regulation (1) of Regulation 4 of the aforesaid Regulations shall be substituted as under :

4. (1) Motor Car Advance:—

- (i) All the Trust's Officers whose Basic Pay is Rs. 10,500 per month and above are eligible for the grant of Motor Car Advance for the purchase of Motor Car
- (ii) The quantum of advance for the purchase of new Motor Car on the first occasion is 20 months' basic pay subject to a maximum of Rs. 2.5 lakhs or 80% of the cost of new car whichever is lower.
- (iii) The quantum of advance for the purchase of new Motor Car on the second and/or subsequent occasions is Rs. 1,60,000 or 11 months basic pay or the anticipated cost of the new Motor Car to be purchased whichever is the least.
- (iv) In the case of purchase of second hand Motor Car on the first occasion, the quantum of advance admissible is 20 months basic pay subject to a maximum of Rs. 1.80 lakhs or actual cost of the car to be certified by the notified assessor, whichever is lower.
- (v) In the case of purchase of second hand/old Motor car on the second and subsequent occasions, the quantum of advance admissible is 20 months basic pay subject to a maximum of Rs. 80,000 or the actual cost of the car to be certified by the notified assessor, whichever is lower.
- (vi) The advance granted for the purchase of Motor Car in all cases shall be recoverable in not exceeding 200 equal monthly instalments commencing with the first issue of pay after the advance is drawn.

- (2) The sub-Regulation (2) of Regulation 4 of the aforesaid Regulations shall be substituted as under:

4. (2) Motor Cycle/Scooter/Moped Advance :

- (i) All employees of the Trust whose Basic Pay is Rs. 4600 per month or more are eligible for the grant of advances for the purchase of Motor Cycle/Scooter/Moped.
- (ii) The quantum of advance for the purchase of new Motor Cycle/ Scooter/Moped on the first occasion is 8 months' basic pay subject to a maximum of Rs. 30,000 or 80% of the actual cost of the new Motor Cycle/ Scooter/Moped, whichever is lower.
- (iii) The quantum of advance for the purchase of new Motor Cycle/ Scooter/Moped on the second or subsequent occasion is Rs. 24,000 or 5 months basic pay or anticipated cost of the new Motor Cycle/ Scooter/Moped to be purchased whichever is the least.
- (iv) The advance granted under Regulation 4(2) (ii) and (iii) shall be recoverable in not more than 70 equal instalments commencing from the first issue of pay after the drawal of advance

(v) In the case of purchase of second-hand Motor Cycle/Scooter/Moped, the quantum of advance admissible is Rs. 10,000 or the actual price of the vehicle whichever is the least and the amount so granted is recoverable in 60 equal monthly instalments commencing from the first issue of pay after the drawal of advance.

(3) The sub-Regulation (2) of Regulation 5 of the aforesaid Regulations shall be substituted as under :

5. (2) The quantum of advance for the purchase of a brand new bicycle is Rs. 1500 which is recoverable in 25 equal monthly instalments commencing from the first issue of pay after receipt of advance.

(4) The following shall be included as sub-Regulation (5) under Regulation 7 of the aforesaid Regulations: Sub-Regulation (5) of Regulation 7.

All other conditions in the matter of grant of the above conveyance advances namely entitlement, eligibility, monthly instalments of recovery and interest on advance will be governed by the existing orders or orders issued from time to time.

Footnote:—Madras Port Trust Employees' (Grant of Conveyance Advance) Regulations, 1994 approved by Central Government and published in the Gazette of India *vide* MOST's Notification No. GSR 57(E) dated the 2nd February, 1994 and subsequently amended *vide* MOST's Notification No. G.S.R. 13(E) dated 9-1-96.

[F.No. PR-12016/6/2002-PE-I]

R. K. JAIN, Joint Secy.